

अल्पकालीन प्रेस विज्ञप्ति

Walk-in-interview for Sports Coach (Badminton)

भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक संख्या SAI/NSRC /SCH/O.O/30/2020 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में साई एक्सटेंशन सेंटर हे0न0बहु0 स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा में बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु 01 (एक) प्रशिक्षक की काॅन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति की जानी है, जिस हेतु निम्नानुसार अर्हताएं होनी अनिवार्य है।

आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष, जबकि योग्य मामलों में छूट दी जा सकती है।

तैनाती अवधि प्रारम्भिक चरण में 02 साल का अनुबंध तथा प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध विस्तारित जा सकता है।

खेल उपलब्धियां 1.मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल एसोसियेशन के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में किया हो।

2.खेलो इंडिया गेम्स में पदक प्राप्त अथवा राष्ट्रीय खेल फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया हो

3.राष्ट्रीय आॅल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया हो।

4.खेलो इंडिया गेम्स में प्रतिभाग या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडरेशन द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में प्रतिभाग किया हो।

नियत मानदेय रू0 25,000/- प्रतिमाह

उक्तानुसार अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक खिलाड़ी/प्रशिक्षक अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, खेल उपलब्धियों, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि मूल रूप में एवं समस्त प्रमाण पत्रों की एक-एक छायाप्रति तथा 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित साक्षात्कार (Walk-in-interview) के लिए गठित चयन समिति के सम्मुख जिला खेल कार्यालय अल्मोड़ा में दिनांक 07.09.2020 को प्रातः 9:00 बजे उपस्थित हो सकते हैं

शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में जिला खेल कार्यालय अल्मोड़ा में देखी जा सकती है

जिला क्रीडा अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा।

संख्या /साई एक्स0से0पत्रा0/2020-21/अल्मो0 दिनांक सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा।
2. निदेशक महोदय, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. कार्यकारी निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या SAI/NSRC/SCH/O.O/30/2020 दिनांक 26.08.2020 के क्रम में।
4. प्रशासक, S.T.C काशीपुर ऊधम सिंह नगर।
5. गठित चयन समिति के सदस्यों हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. विज्ञापन प्रभारी, अमर ऊजाला एवं हिन्दुस्तान अल्मोड़ा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान देकर शासकीय दरों में दिनांक 03.09.2020 के अंक में प्रकाशित करने तथा बिल 02 प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा से सत्यापित कर इस कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

जिला क्रीडा अधिकारी,
अल्मोड़ा।